

प्रेस नोट

दिनांक 21.11.2022

सराहनीय कार्य थाना पीपरपुर

लूट का खुलासा, लूट की 01 अदद मोटरसाइकिल व 01 हजार रुपए नगद के साथ 01 अभियुक्त व 01 बाल अपचारी गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 18.11.2022 को वादी श्री राजेश कुमार यादव पुत्र शिवसागर यादव नि0 ग्राम पीताम्बरपुर मजरे बालीपुर डुहिया थाना पीपरपुर जनपद अमेठी द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि आज शाम करीब 08:20 बजे अमेठी दुकान से स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल संख्या यूपी 36 1370 से जा रहे थे कि दाण्डी बाबा स्थान के पास आपाचे सवार 03 अज्ञात लोग मुझे रोककर 2000 रुपये नगद व मोटरसाइकिल छीनकर भाग गये थे । जिस सूचना पर थाना पीपरपुर पर मु0अ0स0 164/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है । उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा प्रभारी निरीक्षक पीपरपुर को आवश्यक आदेश निर्देश दिये गये थे ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.11.2022 को श्री धीरेन्द्र कुमार यादव प्रभारी निरीक्षक थाना पीपरपुर मय हमराही द्वारा देखभाल क्षेत्र चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सचिन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह नि0 ग्राम शहरी थाना व जनपद अमेठी को शहरी मुर्गी फार्म के पास से गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को हारीपुर मोड़ के पास से लूट की घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर की आपाचे मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया । बाल अपचारी के कब्जे से लूट के 1000 रुपये नगद व लूट में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल फोन बरामद हुआ व अभियुक्तों की निशानदेही पर लूट की स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल संख्या यूपी 36 1370 हारीपुर नदी के पास पुल के बगल झाड़ियों से बरामद हुई ।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया हम दोनो अपने एक अन्य साथी अमित सिंह पुत्र राजेश सिंह नि0 शहरी थाना व जनपद अमेठी के साथ मिलकर इसी आपाचे मोटरसाइकिल का प्रयोग कर लूट व चोरी की घटनाएं करित करते हैं तथा पहचान छुपाने व पकड़े जाने के डर से आपाचे मोटरसाइकिल पर नम्बर प्लेट नहीं लगाते हैं । दिनांक 18.11.2022 को हम दोनो अपने साथी अमित सिंह के साथ मिलकर दाण्डी बाबा के पास मोटरसाइकिल व 2000 रुपये नगद लूटकर भाग गये थे, बरामद रुपये व मोटरसाइकिल उसी लूट के हैं । थाना पीपरपुर द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सचिन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह नि0 शहरी थाना व जनपद अमेठी । उम्र करीब 23 वर्ष ।
2. एक बाल अपचारी

वांछित अभियुक्त का नाम पता-

- अमित सिंह पुत्र राजेश सिंह नि0 शहरी थाना व जनपद अमेठी ।

बरामदगी-

1. स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल संख्या यूपी 36 1370 ।
2. 01 हजार रुपये नगद ।
3. घटना में प्रयुक्त आपाचे मोटरसाइकिल बिना नम्बर ।
4. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल फोन ।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

1. मु0अ0स0 164/22 धारा 392.411 भादवि थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।
2. मोटर साइकिल आपाचे बिना नम्बर (207 एमवी एक्ट) ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार यादव प्र0नि0 थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 प्रेम प्रकाश थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 नीरज यादव थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।
4. हे0का0 हेमन्त यादव थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।
5. का0 आशीष यादव थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।
6. का0 सूर्यदेव यादव थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।

अभियुक्त सचिन सिंह का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 285/19 धारा 147,323,427,452,504.506 भादवि थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0स0 292/19 धारा 379,411 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।